

## समन्वय से विकास

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान

समन्वय का अर्थ है— मेलजोल से रहना, अनुशासन से रहना, विषम परिस्थितियों में धैर्य धारण करना और अनेकता में एकता को ढूँढ लेना समन्वय है। समन्वय में प्रगति निहित है। सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना समन्वय में निहित है। समन्वय जीवन विकास का सूत्र है। प्रत्येक परिस्थिति में हर जगह अपने को मिला लेना समन्वय कहलता है। जो व्यक्ति इस कला को जानता है, जीवन में उसकी हार नहीं होती। मानव परिवार से लेकर राष्ट्र तक अपने सम्बन्धों को बनाता है। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं। सब की रुचि और सबका मिजाज अलग-अलग होता है। कोई उग्र स्वभाव का होता है तो कोई नम्र स्वभाव का। सभी को एक साथ रहने के लिए तालमेल बैठाना आवश्यक होता है। परिवार में समन्वय करने के लिए बड़ों का सम्मान करना पड़ता है। बड़ों का भी यह कर्तव्य है कि वे छोटों को आदर दे और उनके प्रति स्नेह का भाव रखे। जहां आवश्यक हो उन्हें सुझाव देकर अपनी बात को उनके सामने रखे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव को एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना होता है। यह शिक्षा परिवार से ही प्रारंभ होती है। परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बालक को माता-पिता और अन्य पारिवारिकजन जो कुछ भी शिक्षा देते हैं उसी के अनुरूप बालक के चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा, खेल एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ सम्बन्ध समन्वय के हिसाब से ही होता है। जब बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो वहां अनेक वस्तुओं से उसका सम्पर्क होता है। धीरे-धीरे बच्चा सभी के साथ समन्वय करके रहना सीखता है और पढ़ना सीखता है। धीरे-धीरे यह भावना और आगे बढ़ती है और वह सबके साथ घुल-मिल जाता है। कोई भी खेल हो जब उस खेल को टीम भावना से खेला जाता है तो वियजश्री अवश्य मिलती है। यदि खिलाड़ियों तालमेल न हो तो खेल को जीतना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। क्रिकेट के मेच में दो देश जब आमने-सामने प्रतिद्वन्द्वी के रूप में क्रिकेट खेलते हैं तो हर दल को बहुत ही समन्वय करना पड़ता है। इसी प्रकार सभी खेलों में इस

भावना का होना आवश्यक है। समन्वयके बढ़ने से दृष्टिकोण विधेयात्मक बनता है और जिस व्यक्ति का विधेयात्मक दृष्टिकोण रहता है वहीं आगे बढ़ता है।

महाभारत के प्रसंग में देखा जाये तो भगवान श्रीकृष्ण ने कौरव और पाण्डव दोनों पक्षों में समन्वय कराने का बहुत प्रयास किया। किन्तु दुर्योधन के निषेधात्मक दृष्टिकोण के कारण यह संभव न हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी हो गया और इस युद्ध का परिणाम सबके सामने है। फलतः कौरवों का विनाश हुआ। निषेधात्मक दृष्टिकोण विनाश को बुलावा देता है और रचनात्मक दृष्टिकोण उन्नति प्रदान करता है। महान् व्यक्तियों का व्यक्तित्व सदैव रचनात्मक होता है। वे विवाद नहीं करना चाहते। यदि कोई उन्हें अपशब्द भी कह दे तो वे उसका प्रतिकार नहीं करते। विवाद तब होता है जब अहंकार टकराता है। अहंकार की लड़ाई में सबकुछ नष्ट हो जाता है। दो पक्षों में जब विवाद होता है तो दोनों न्यायालय की शरण में जाते हैं। विवाद के पहले यदि दोनों पक्ष बैठकर आपस में समझौता कर लें तो उन्हें न्यायालय में न जाना पड़े और एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ना न पड़े, धन का नुकसान न हो। जो धन अनावश्यक रूप से न्यायालय में जाने से खर्च हो रहा है उसको किसी रचनात्मक कार्य में यदि लगाया जाये तो उससे विकास होगा। न्यायालय भी यही कार्य करता है। दोनों के गुण और दोष के अनुसार दण्ड और पुरस्कार देता है और दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष बैठकर संतोष धारण करके आपस में समझौता कर लें तो किसी को न तो नुकसान होगा न फायदा। जिसको जो मिलना चाहिए वह मिल जायेगा। प्रकृति भी समन्वय की शिक्षा मानव को देती है। प्रकृति पंचभूतात्मक है। यदि पांचों तत्व आपस में न मिले तो सृष्टि का बनना असंभव है, किन्तु ऐसा होता नहीं। जैसा समन्वय प्रकृति में है यदि वैसा ही हर जगह हो तो कहीं विवाद नहीं होगा। पांचो तत्वों के समन्वय का परिणाम है यह भौतिक संसार। सभी तत्व सभी तत्वों में मिले हुए हैं। जिसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए उसी के अनुसार उनका मिश्रण हो जाता है और प्रकृति में तालमेल बना रहता है।

मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके प्रकृति के स्वरूप को विकृत कर रहा है। जिसका परिणाम है प्रकृति का प्रकोप। कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है तो कहीं पर अनावृष्टि। कहीं पर

सुनामी आ रही है तो कहीं पर भूकम्प। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मानव प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर नहीं चल रहा है। मानव को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा यही प्राथमिक आवश्यकता है। किन्तु मानव आवश्यकता से अधिक प्रकृति का दोहन कर रहा है। इच्छाएं आकाश के समान अनन्त होती है। सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता। यदि इच्छाओं को पूरा किये जाने का प्रयास किया जायेगा तो दूसरी इच्छा सामने आ जायेगी। इसी तरह इच्छाएं बढ़ती जायेगी। इनका पूरा होना असंभव है। यदि प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बैठाया जायेगा तो मानव का भी विनाश निश्चित है। किसी को क्रोध करके उससे कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर प्रकृति का उपयोग किया था। उस समय प्रकृति के हर अवयव की पूजा होती थी। भारतीय शास्त्रों में प्रकृति पूजा के अनेक उदाहरण मिलते हैं।